

## प्रेस नोट दिनांक-02-07-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के कुशल निर्देशन में हिस्ट्रीसीटर/गैंगेस्टर/टॉप-10/ इनामिया अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा 03 वर्ष से फरार/वाँछित चल रहे एवं 25000/- रुपये के इनामिया अपराधी अनूप सिंह गौर पुत्र जीतेन्द्र सिंह निवासी साड़ासानी थाना कमासिन जनपद बांदा को 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 121/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अनूप सिंह गौर उपरोक्त थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/18 धारा 379/411 भादवि0 व मु0अ0सं0 124/18 धारा 379/411 भादवि0 का वाँछित अभियुक्त था, इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 25000/-रुपये का इनाम घोषित किया था।

### अभियुक्त अनूप सिंह गौर का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 37/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
2. मु0अ0सं0 124/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
3. मु0अ0सं0 41/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना बबेरू जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 90/17 धारा 411/413/414 भादवि0 थाना कमासिन जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 52/18 धारा 41/411/413/414/467/420/468/471 भादवि0 थाना कमासिन जनपद बांदा
6. मु0अ0सं0 426/18 धारा 379/411 भादवि0 कोतवाली शहर जनपद बांदा
7. मु0अ0सं0 121/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर

### बरामदगी:-

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी प्रभारी गनीवा
2. आरक्षी पवन यादव
3. आरक्षी संदीप यादव
4. आरक्षी वृन्दावन

(2). आज दिनांक-02.07.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन चित्रकूट में 212 रिक्कूट आरक्षी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं जिनको प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण निदेशालय से 09 आईटीआई एवं 05 पीटीआई आवंटित किये गये हैं। महोदय द्वारा प्रभारी आउटडोर/मेजर आफाक खां को बेहतर सिखलायी प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये एवं प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों की परेड में सुधार करवायें एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दें। परेड के दौरान गलती करने वाले रिक्कूट आरक्षियों को टोकने एवं सुधार कराने हेतु उस्तादों को निर्देश दिये।

इसके पश्चात महोदय द्वारा क्वार्टर गार्ड में सलामी लेकर निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा स्टोर कार्यालय में दंगा नियंत्रण उपकरणों का भी बारीकी से निरीक्षण किया एवं उपलब्ध पी0एम0 किट को थानों को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। आदेश कक्ष में जनपद के विभिन्न थानों से आये बीट आरक्षियों की बीट बुक चैक की गयी तथा जिनकी बीट बुक में कमियां पायी गयीं उन्हें शीघ्र पूर्ण करने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिये गये। वन महोत्सव के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने कर कमलों से आम का पौधा रोपित किया व उपस्थित अन्य अधि0/कर्मचारीगणों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। महोदय द्वारा लक्ष्य के अनुरूप पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर/लाईन्स श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, सिंह प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). दिनांक-02.07.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में डकैत गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस की 02 टीमों ने जंगलों में कॉम्बिंग की। श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ताला पुरवा, देशाह, कोबरा, गढ़चपा जंगलों में, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में अन्नपूर्णा देवी जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(4). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 02.07.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा लालापुर व बोड़ीपोखरी में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बिसण्डा रोड, कस्बा पहाड़ी, बाजार, बैंक में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा दीपू कोलान ग्राम में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मन्दिर व बरगढ़ मोड़ में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा बरगदीपुरवा, यादव पुरवा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा मण्डौर रोड, बाजार, बस स्टैण्ड कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम चुनकावन का पुरवा एवं रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो स्क्वायड मानिकपुर द्वारा इंदिरा नगर, शिव नगर, रेलवे स्टेशन के पास मानिकपुर में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।